



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2005/अग्रहायण 4, 1927

No. 1232]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2005/AGRAHAYANA 4, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2005

का.आ. 1665(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1965 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 228 (अ) तारीख 16 फरवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 378.000 कि. मी. से 418.000 कि. मी. तक के भूखण्ड का निर्माण करने (चार लेन का बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार “राजस्थान पत्रिका” और “दैनिक भास्कर” दोनों में तारीख 26 फरवरी, 2005 को प्रकाशित किया गया था;

और भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर विचार उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के 378.000 कि० मी० से 418.000 कि० मी० तक भूखण्ड के अंतर्गत अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि ।

जिला: कोटा

3D-2-228

तहसील: लाडपुरा

| क्र. स. | गाँव का नाम | खसरा न. | अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार | भू-स्वामी का नाम |
|---------|--------------------------|---------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सकतपुरा | 521 | 0.21 | मिलिट्री डिपार्टमेंट | मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट |
| | | 530 | 0.01 | मिलिट्री डिपार्टमेंट | मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट |
| | | 548 | 0.72 | मिलिट्री डिपार्टमेंट | मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट |
| | | 545 | 0.53 | मिलिट्री डिपार्टमेंट | मिलिट्री एरिया डिपार्टमेंट |
| 2 | आनन्दपुर उर्फ फूटा तालाब | 44 | 0.05 | खाली | सिवाय चक |
| 3 | उम्मेद गंज | 68 | 0.11 | सिंचाई विभाग | सिंचाई विभाग |
| | | 97 | 0.08 | कृषि | श्री किशन पिता कालू जाति भील |
| | | 98 | 1 | कृषि | ग्राम पंचायत |
| | | 99 | 0.71 | कृषि | धन्नालाल पिता गोपी लाल जाति माली |
| | | 100 | 0.37 | कृषि | ईश्वर लाल पिता नारायण सिंह जाति राजपुत |
| | | 104 | 0.02 | कृषि | रामस्वरूप सिंह, अमर सिंह, भीम सिंह पिता राम रतन सिंह, पुष्पा बाई पत्नी राम रतन सिंह जाति राजपुत |
| | | 115 | 0.04 | सिंचाई विभाग | सिंचाई विभाग |
| | | 119 | 0.4 | कृषि | झूलालाल पिता मोती जाति गुर्जर |
| | | 120 | 0.57 | कृषि | धनपाल धनश्याम हरिजी पिता मोती लाल जाति गुर्जर |
| | | 122 | 0.05 | कृषि | धन सिंह पिता कालू राम जाति राजपुत |
| | | 135 | 0.09 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 248 | 0.05 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 251 | 0.06 | सिवाय चक | सिंचाई विभाग |
| | | 252 | 0.05 | सिवाय चक | सिंचाई विभाग |
| | | 253 | 0.03 | सिवाय चक | सिंचाई विभाग |
| | | 254 | 0.01 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 255 | 0.37 | पीएचईडी | पीएचईडी |
| | | 255/604 | 0.73 | पीएचईडी | पीएचईडी |
| | | 256 | 0.04 | सिवाय चक | तहसीलदार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------|--------|------|----------|---|
| | | 258 | 0.01 | सिचाई | सिचाई विभाग |
| | | 97/570 | 0.16 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| 4 | कंवर पुरा | 62 | 0.39 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 60 | 0.2 | कृषि | राम कंवरी मेवा नारायण गुलाब बाई राजी बाई मुन्नीबाई पार्वती बाई पुत्री नारायण डाटाक पुत्र फूलचंद १/६ हि. परमानंद किशनलाल शिव कुमार रूपेश कुमार पिता नाथु लाल कालीबाई पत्नी नाथुलाल हि. १/६ ग्यासी लाल मोहरपाल सुंदर लाल पंचु लाल पिता चंद्रा हि. ४/६ जाति मीणा |
| | | 63 | 0.02 | कृषि | राम कंवरी मेवा नारायण गुलाब बाई राजी बाई मुन्नीबाई पार्वती बाई पुत्री नारायण डाटाक पुत्र फूलचंद १/६ हि. परमानंद किशनलाल शिव कुमार रूपेश कुमार पिता नाथु लाल कालीबाई पत्नी नाथुलाल हि. १/६ ग्यासी लाल मोहरपाल सुंदर लाल पंचु लाल पिता चंद्रा हि. ४/६ जाति मीणा |
| | | 64 | 0.2 | कृषि | राम कंवरी मेवा नारायण गुलाब बाई राजी बाई मुन्नीबाई पार्वती बाई पुत्री नारायण डाटाक पुत्र फूलचंद १/६ हि. परमानंद किशनलाल शिव कुमार रूपेश कुमार पिता नाथु लाल कालीबाई पत्नी नाथुलाल हि. १/६ ग्यासी लाल मोहरपाल सुंदर लाल पंचु लाल पिता चंद्रा हि. ४/६ जाति मीणा |
| | | 59 | 0.5 | कृषि | राम कंवरी पत्नी नारायण जाति मीणा |
| | | 65 | 0.12 | कृषि | नंदकिशोर रमेश बालिम लक्ष्मण नाबालिम पुत्र मेनु पुजिया और रतनबाई पुत्री तस्वीर रतन बाई पत्नी तस्वीर |
| | | 58/298 | 0.39 | चारागाह | चारागाह |
| | | 58 | 0.69 | चारागाह | चारागाह |
| | | 57 | 0.24 | कृषि | चतुर्भुज मुन्नालाल चोटमल मोहन केबरालाल पिता भंवरीया किशोरी बाई पत्नी भंवरीया हि. १/३ रामलाल पिता किशन हि. १/३ प्रभुलाल छोटुलाल देवीलाल देउबाई हि. १/३ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------|--------|------|--------------|---|
| | | 53/296 | 0.06 | खाली | |
| | | 77 | 0.15 | सिंचाई विभाग | सिंचाई विभाग |
| | | 204 | 0.17 | कृषि | बोजार सिंह पिता मगर सिंह जाति जाट |
| | | 205 | 0.5 | मंदिर | मंदिर |
| | | 206 | 0.35 | खाली | |
| | | 207 | 0.05 | सिंचाई विभाग | सिंचाई विभाग |
| | | 226 | 0.02 | मिजी | अनिल कुमार मोरगेज टु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
| | | 222 | 0.27 | कृषि | गोपी बाई पत्नी सत्यनारायण ब्रिज मोहन शम्भु दयाल पिता गोपी बाई कंचन बाई पत्नी काल्या हि. १/३ कस्तुरी पत्नी चंदा संकरी रूकमणी पुत्री चंद्रा हि. १/३ फूलवंत दत्तक पुत्र लीला बाई पत्नी मुन्ना हि. १/३ जाति भील |
| | | 224 | 0.08 | कृषि | गोपी बाई पत्नी सत्यनारायण ब्रिज मोहन शम्भु दयाल पिता गोपी बाई कंचन बाई पत्नी काल्या हि. १/३ कस्तुरी पत्नी चंदा संकरी रूकमणी पुत्री चंद्रा हि. १/३ फूलवंत दत्तक पुत्र लीला बाई पत्नी मुन्ना हि. १/३ जाति भील |
| | | 223 | 0.56 | कृषि | गोपी बाई पत्नी सत्यनारायण ब्रिज मोहन शम्भु दयाल पिता गोपी बाई कंचन बाई पत्नी काल्या हि. १/३ कस्तुरी पत्नी चंदा संकरी रूकमणी पुत्री चंद्रा हि. १/३ फूलवंत दत्तक पुत्र लीला बाई पत्नी मुन्ना हि. १/३ जाति भील |
| | | 219 | 0.16 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 225 | 0.6 | भूमि | अनिल कुमार मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया |
| | | 213 | 0.11 | नाला | सरकारी भूमि/नाला |
| 5 | धाकड़ खेड़ी | 357 | 0.28 | कृषि | सुखदेव पिता नारायण बबुल पेड़ और एक बोरिंग मोरगेज ओरियटल बैंक ऑफ कामर्स |
| | | 360 | 0.3 | कृषि | रतनलाल कल्याण रामचरण रामचरण रमेश पिता नारायण. नन्दो बाई पुत्री नारायण |
| | | 356 | 0.02 | कृषि | रतनलाल कल्याण रामचरण रामचरण रमेश पिता नारायण नन्दो बाई पुत्री नारायण एक बबुल का पेड़ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-----|------|--------------|---|
| | | 398 | 0.03 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 361 | 0.9 | कृषि | रामचंद्र पिता किशनलाल मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया कैथुन ब्रांच अर्जुनपुरा |
| | | 363 | 0.4 | कृषि | रामचंद्र पिता किशनलाल मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया कैथुन ब्रांच अर्जुनपुरा |
| | | 364 | 0.06 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 370 | 0.09 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 369 | 0.06 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 368 | 0.08 | कृषि | उदय पिता कांशीराम |
| | | 371 | 0.34 | कृषि | उदय पिता कांशीराम |
| | | 372 | 0.02 | कृषि | प्रभुलाल, द्वारकालाल रामचरण छोटुलाल पिता मांगी बाई पुत्री नंदा ५/१४ महावीर पिता कमला फुला यशोदा कला पुत्री सोसर बाई पत्नी माडुलाल १/४ रेशनबाई पत्नी रामकल्याण १/४ मिस्त्री कस्तुरी शांति पुत्री गोपाल हि. १/२ जाति मीणा |
| | | 367 | 0.05 | सिंचाई विभाग | सिंचाई विभाग |
| | | 331 | 0.12 | सिंचाई विभाग | सिंचाई विभाग |
| | | 345 | 0.08 | सिवाय चक | तहसीलदार एक पेड़ बबुल |
| | | 346 | 0.03 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 344 | 0.2 | कृषि | भैरूलाल गंदीलाल मुकुट बिहारी पिता रामा गोपाली बाई पत्नी रामा, कंचन पारी और कैलाशी पुत्री रामा मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया कैथुन रूपया ६६५०.०० |
| | | 334 | 0.03 | कृषि | भैरूलाल गंदीलाल मुकुट बिहारी पिता रामा गोपाली बाई पत्नी रामा, कंचन पारी और कैलाशी पुत्री रामा मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया कैथुन रूपया ६६५०.०० |
| | | 343 | 0.53 | कृषि | गजानन पिता भैरवलाल गुलाब डाली पुष्पा पुत्री भंवरलाल जाति माली |
| | | 335 | 0.08 | कृषि | सत्ताम कौर पत्नी कमल सिंह मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया एडीपी कोटा रूपया ४६००००.०० |
| | | 320 | 1.2 | कृषि | सत्ताम कौर पत्नी कमल सिंह मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया एडीपी कोटा रूपया ४६००००.०० |

3304 GI/05-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------|------|-------------|--|
| | | 319 | 0.01 | कृषि | सत्ताम कौर पत्नी कमल सिंह मोरगेज सेंट्रल बैंक और इंडिया एडीपी कोटा रुपया ४६००००.०० |
| | | 308 | 0.06 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 307 | 0.15 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 306 | 0.05 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 788 M | 0.8 | निजी | इमामुल बाइबिल इंस्टीट्यूट कोटा |
| | | 790 | 0.6 | निजी | इमामुल बाइबिल इंस्टीट्यूट कोटा |
| | | 791 | 0.13 | निजी | इमामुल बाइबिल इंस्टीट्यूट कोटा |
| | | 795/1028 | 0.05 | निजी | इमामुल बाइबिल इंस्टीट्यूट कोटा |
| | | 796 | 0.27 | कृषि | सफी मोहम्मद पिता यशीन खां मोरगेज पंजाब नेशनल बैंक |
| | | 795 | 0.15 | कृषि | गुरुजाट सिंह हरमेश सिंह पिता श्रवण सिंह हि. २/३, इमानुलहक बाइबिल स्कूल कोटा हि. १/३ |
| | | 797 | 0.26 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 807 | 0.04 | कृषि | रामदेव कल्याण कालू हि. गुलाब नर्बदा हि. १/२ बाबु बाई अब्दुल हमीद पिता मखलाल गुलशन पुत्री मखलाल रहमत पत्नी मखलाल जाति मुस्लिम हि. १/२ |
| | | 804 | 0.71 | कृषि | रामदेव कल्याण कालू हि. गुलाब नर्बदा हि. १/२ बाबु बाई अब्दुल हमीद पिता मखलाल गुलशन पुत्री मखलाल रहमत पत्नी मखलाल जाति मुस्लिम हि. १/२ |
| | | 806 | 0.61 | कृषि | रामदेव कल्याण कालू हि. गुलाब नर्बदा हि. १/२ बाबु बाई अब्दुल हमीद पिता मखलाल गुलशन पुत्री मखलाल रहमत पत्नी मखलाल जाति मुस्लिम हि. १/२ |
| | | 805 | 0.2 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 809 | 0.33 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 810 | 0.06 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 808 | 0.3 | कृषि | छोटु लाल मदन लाल ब्रिजमोहन पिता धन्ना और गयासी जाति माली हि. १/२, कमलाबाई पत्नी ब्रिजमोहन जाति माली १/२ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------|-----|------|-------------|--|
| | | 802 | 0.1 | कृषि | धन्नालाल पिता धोबी सुन्दरा कमला पुर्णिया पुत्री चोथमल २/५ लालचंद पिता निर्मल रिकु माइनर चाइल्ड पुत्री पुर्णिया शांति पत्नी कन्हैयालाल प्रेमबाई पुत्री लालु १/२ |
| 6 | झालीपुरा | 59 | 0.03 | सिवाय चक | तहसीदार |
| | | 65 | 0.22 | कृषि | गजनन पिता मोतिया जाति कुमावत |
| | | 66 | 0.1 | कृषि | नवल किशोर पिता रामकिशन जाति कुमावत |
| | | 71 | 0.02 | कृषि | नवल किशोर पिता रामकिशन जाति कुमावत |
| | | 72 | 0.1 | कृषि | गंदीलाल पिता गोथ्या जाति कुमावत |
| | | 73 | 0.24 | कृषि | रामपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह दार्यव कुंवर पिता पृथ्वीपाल सिंह राजपुत |
| | | 92 | 0.08 | कृषि | रामपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह दार्यव कुंवर पिता पृथ्वीपाल सिंह राजपुत |
| | | 93 | 0.01 | कृषि | रामपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह दार्यव कुंवर पिता पृथ्वीपाल सिंह राजपुत |
| | | 94 | 0.05 | कृषि | रामपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह दार्यव कुंवर पिता पृथ्वीपाल सिंह राजपुत |
| | | 123 | 0.03 | कृषि | अहमद इकबाल पिता राजा मोहम्मद |
| | | 124 | 0.09 | कृषि | श्यामलाल रामकरण जानकीलाल ओमप्रकाश पिता भैरवलाल नर्मदा पिता भैरवलाल |
| | | 126 | 0.18 | निजी | ओमप्रकाश पिता भैरवलाल |
| | | 127 | 0.01 | निजी | ओमप्रकाश पिता भैरवलाल |
| | | 128 | 0.01 | निजी | ओमप्रकाश पिता भैरवलाल |
| | | 146 | 0.01 | निजी | नंदकिशोर पिता मांगीलाल |
| | | 152 | 0.02 | निजी | नंदकिशोर पिता मांगीलाल |
| | | 153 | 0.07 | निजी | नंदकिशोर पिता मांगीलाल |
| | | 154 | 0.06 | निजी | सिवाय चक |
| | | 155 | 0.25 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 156 | 0.14 | निजी | श्यामलाल पिता भैरवलाल |
| | | 55 | 0.05 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------|-----------------|------|----------|--|
| 7 | बोरखंडी | 448 | 0.01 | कृषि | फुली पुत्री लक्ष्मण मोतीलाल जमींदार पिता बजरंगलाल जाना पत्नी बजरंग लाल |
| | | 403 | 0.01 | सिवाय चक | तहसीलदार एक कुआं |
| | | 407 | 0.09 | सिवाय चक | तहसीलदार मकान विजय सिंह पिता भंवर सिंह राजपुत |
| | | 402 | 0.14 | सिवाय चक | तहसीलदार एक हैंड पम्प सरकारी |
| | | 401 | 0.01 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| 9 | ताथेड़ | 432 | 0.03 | कृषि | सुरेन्द्र सिंह इत्यादि |
| | | 446 | 0.01 | कृषि | हेमराज पिता मोडुलाल मंजु पुत्री मोडुलाल रामकंवरी पत्नी मोडुलाल जाति धाकड़ |
| | | 445 | 0.03 | कृषि | हेमराज पिता मोडुलाल मंजु पुत्री मोडुलाल रामकंवरी पत्नी मोडुलाल जाति धाकड़ |
| | | 451 | 0.09 | कृषि | सुरजमल किशोर बाबुलाल पिता धन्ना केसर पत्नी धन्ना हि. १/२ रामकन्या रामरतन पिता परसा १/२ जाति धोबी |
| | | 392/907 | 0.04 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 298 | 0.11 | कृषि | सुरेशचंद पिता मोतीलाल जाति माली |
| | | 299 | 0.05 | कृषि | सुरेशचंद पिता मोतीलाल जाति माली |
| | | 300/959 | 0.1 | कृषि | सुरेशचंद पिता मोतीलाल जाति माली |
| | | 300 | 0.24 | | तहसीलदार |
| | | 260 | 0.02 | कृषि | गोपाल पिता नंदलाल जाति भामन |
| | | 258/869/ 943 | 0.08 | कृषि | गोपाल पिता नंदलाल जाति भामन |
| | | 258/869 | 0.14 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 248 | 0.08 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 244 | 0.09 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 469M | 0.15 | कृषि | शालीन कुमार पिता सुशील कुमार गुप्ता जाति वेश्य विज्ञान नगर कोटा |
| | | 476 | 0.04 | कृषि | सिंचाई विभाग |
| | | 568 | 0.77 | कृषि | सिंचाई विभाग |
| | | 629 | 0.09 | कृषि | रामनारायण पिता रामगोपाल जाति धाकड़ |
| | | 626 | 0.1 | कृषि | कोडरी सुआ लिमिटेड |
| | | 627 | 0.17 | | तहसीलदार |
| | | 296 | 0.01 | कृषि | मोतीलाल पिता बाला बाकस जाति माली |
| | | 297 | 0.01 | कृषि | मोतीलाल पिता बाला बाकस जाति माली |
| | | 786 | 0.01 | | तहसीलदार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|-------|------|-------------|--|
| 10 | ब्रजेशपुरा | 469/2 | 0.01 | कृषि | ओमप्रकाश पत्नी गोपीलाल धोबी मनास गांव |
| | | 396 | 0.05 | कृषि | हरि पिता नानक धोबी ताथेर |
| | | 397 | 0.13 | कृषि | रामदेव पिता रामा मेघवाल ताथेर |
| | | 398 | 0.15 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 400 | 0.16 | कृषि | रामकिशन पिता डालु मेघवाल दसलाना |
| | | 404 | 0.01 | कृषि | रामदेव रामनिवास पिता गणेश २/३ बजरंगलाल शंकरलाल रामकुमार प्रेमलाल भंवरी पिता चेताराम मीणा |
| 11 | दसलाना | 520 | 0.05 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 527 | 0.23 | कृषि | श्रीलाल पिता शंकर जानकी पत्नी शंकर जाति धाकड़ |
| | | 580 | 0.26 | कृषि | रामस्वरूप पिता चतुर्भुज निवासी झालीपुर |
| | | 581 | 0.1 | कृषि | रामनाथ पिता चतुर्भुज धाकड़ |
| | | 582 | 0.03 | कृषि | रामनाथ पिता चतुर्भुज धाकड़ |
| | | 583 | 0.55 | कृषि | रामनाथ पिता चतुर्भुज धाकड़ |
| | | 584 | 0.09 | कृषि | रामनाथ पिता चतुर्भुज धाकड़ |
| | | 585 | 1.02 | कृषि | रामनाथ पिता चतुर्भुज धाकड़ |
| | | 586 | 0.07 | कृषि | रामनाथ पिता चतुर्भुज धाकड़ |
| | | 730 | 0.06 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 731 | 0.15 | कृषि | नंदकिशोर पिता मांगीलाल ब्रह्मण निवासी दादाबाड़ी कोटा |
| | | 746 | 0.01 | कृषि | विमल कुमार पिता गोविंदलाल ब्रह्मण कोटा |
| | | 708 | 0.65 | सा. नि. वि. | सा. नि. वि. |
| | | 696 | 0.01 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| 12 | नया नौहरा | 283 | 0.78 | कृषि | सुरजमल रामस्वरूप बलराम पिता खेमचंद जाति लश्करी |
| | | 280 | 0.34 | कृषि | सुरजमल रामस्वरूप बलराम पिता खेमचंद जाति लश्करी |
| | | 279 | 0.17 | कृषि | आनंदीलाल पिता धन्नालाल जाति लश्करी |
| | | 275 | 0.46 | कृषि | मोत्या बाई पत्नी रामचंद्रा १/२ हरिबल्लभ पिता खेमचंद १/२ लश्करी |

3404 GI/05-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|--------|------|----------|---|
| | | 277 | 0.08 | कृषि | मोडु बजरंग पिता रामा चितर भुलीबाई पुत्री देवा पत्नी कोजोरी पत्नी देवा ओंकार १/४ गणपत केशरीलाल पिता अमरा रामप्यारे पुत्री अमरा १/४ खेमचंद पिता चेताराम प्रकाश भुरी काली गुलाब पुत्री चेताराम प्रकाश मोहन बाई श्याम बाई पुत्री रामलाल |
| | | 276 | 0.45 | कृषि | केशरीलाल भोलुराम हजारीलाल पिता ओंकार लश्करी |
| | | 268 | 0.5 | कृषि | केशरीलाल भोलुराम हजारीलाल पिता ओंकार लश्करी |
| | | 269 | 0.06 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 287 | 0.09 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 153 | 0.43 | कृषि | चमनलाल और संतपवन कुमार चमनलाल और डा. रमेशचंद साहनी पिता लक्ष्य राम साहनी कोटा |
| | | 158 | 0.02 | चारागाह | चारागाह |
| | | 197 | 0.36 | कृषि | त्रिलोकीचंद पिता गुलाब सिंह श्रीमती राजेन्द्र कौर पत्नी त्रिलोचन सिंह कोटा लालचंद मोहनलाल पिता किशना पत्नी किशना बैदव सुरजबाई रामकन्या पुत्री किशनलाल जाति लश्करी |
| | | 193M | 0.08 | कृषि | यू. आई. टी |
| | | 191 | 0.07 | कृषि | लालचंद मोहनलाल पिता किशना पत्नीबाइ देवबाई सुरजबाई रामकन्या पुत्री किशना नारायणी पत्नी किशना जाति लश्करी |
| 13 | हाथी खेड़ा | 7 | 0.05 | मंदिर | मंदिर श्री मुरली महाराज जी |
| | | 8 | 0.04 | कृषि | चोथमल पिता कंवर लाल |
| | | 240 | 0.45 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 258 | 0.18 | सिवाय चक | तहसीलदार |
| | | 10/327 | 0.07 | निजी | |

[फा. सं. भाराग्रा/11014/टेक./पूर्व-पश्चिम-2/एलए/कोटा/2003]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2005

S.O. 1665(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 228(E) dated the 16th February, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways, Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (four – laning) of National Highway No. 76 on the stretch of land from km 378.000 to km 418.000 in District Kota, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in the Rajasthan Patrika and Dainik Bhasker, both dated the 10th May' 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land, specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land to be acquired, with or without structure, falling within the land stretch from km 378.000 to km 418.000 on National Highway No. 76 in the State of Rajasthan.

Kota: District

3D-2-228

Tehsil: Ladpura

| Serial number | Name of village | Khasra number | Area of land to be acquired (in hectare) | Type of land | Name of land owner |
|---------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sakatpura | 521 | 0.21 | Military Department | Military Area Department |
| | | 530 | 0.01 | Military Department | Military Area Department |
| | | 548 | 0.72 | Military Department | Military Area Department |
| | | 545 | 0.53 | Military Department | Military Area Department |
| 2 | Anandpur Alias | 44 | 0.05 | Vaccant | Siwai Chak |
| 3 | Ummedgang | 68 | 0.11 | Irrigation Department | Irrigation Department |
| | | 97 | 0.08 | Agriculture | Sh Kishan S/o Kalu Cast Bheel |
| | | 98 | 1.00 | Agriculture | Gram Panchayat |
| | | 99 | 0.71 | Agriculture | Dhanalal S/o Gopi lal cast mali |
| | | 100 | 0.37 | Agriculture | Iswar Lal S/o Narayan Singh cast Rajput |
| | | 104 | 0.02 | Agriculture | Ram Swroop Singh, Amar Singh, Bhim Singh S/o Ram Ratan Singh, Pushpa Bai W/o Ram Ratan Singh Cast Rajput |
| | | 115 | 0.04 | Irrigation Department | Irrigation Department |
| | | 119 | 0.4 | Agriculture | Jhulalal S/o Moti Cast Gujar |
| | | 120 | 0.57 | Agriculture | Dhan Pal, Ghanshyam, Hajri S/o Moti Lal Cast Gujar |
| | | 122 | 0.05 | Agriculture | Dhan Singh S/o Kalu Ram Cast Rajput |
| | | 135 | 0.09 | PWD | PWD Department |
| | | 248 | 0.05 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 251 | 0.06 | Siwaichak | Irrigation department |
| | | 252 | 0.05 | Siwaichak | Irrigation department |
| | | 253 | 0.03 | Siwaichak | Irrigation department |
| | | 254 | 0.01 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 255 | 0.37 | PHED | PHED |
| | | 255/604 | 0.73 | PHED | PHED |
| | | 256 | 0.04 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 258 | 0.01 | Irrigation | Irrigation department |
| | | 97/570 | 0.16 | Siwaichak | Tehsildar |
| 4 | Kanwar pura | 62 | 0.39 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 60 | 0.2 | Agriculture | Ram Kavri, Mewa Narayan, Gulabbai, Rajibai, Munnibai, Parwatibai D/o Narayan Datak Son Phool Chand, 1/6 Share Parmanand, Kishan Lal, Shiv Kumar, Rupesh Kumar S/o Nathu Lal, Kalibai W/o Nathulal, Yashoda & Kamlesh D/o Nathulal share 1/6, Gyasi lal, Mohrpal, Sunder lal, Panchu lal S/o Chandra share 4/6 cast Meena. (Mordgaged to Alhabad Bank) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------|------|-----------------------|---|
| | | 63 | 0.02 | Agriculture | Ram Kavri, Mewa Narayan, Gulabbai, Rajibai, Munnibai, Parwatibai D/o Narayan Datak Son Phool Chand, 1/6 Share Parmanand, Kishan Lal, Shiv Kumar, Rupesh Kumar S/o Nathu Lal, Kalibai W/o Nathulal, Yashoda & Kamlesh D/o Nathulal share 1/6, Gyasi lal, Mohrpal, Sunder lal, Panchu lal S/o Chandra share 4/6 cast Meena.(Mordgaged to Alhabad Bank) |
| | | 64 | 0.2 | Agriculture | Ram Kavri, Mewa Narayan, Gulabbai, Rajibai, Munnibai, Parwatibai D/o Narayan Datak Son Phool Chand, 1/6 Share Parmanand, Kishan Lal, Shiv Kumar, Rupesh Kumar S/o Nathu Lal, Kalibai W/o Nathulal, Yashoda & Kamlesh D/o Nathulal share 1/6, Gyasi lal, Mohrpal, Sunder lal, Panchu lal S/o Chandra share 4/6 cast Meena.(Mordgaged to Alhabad Bank) |
| | | 59 | 0.5 | Agriculture | Ram Kevri W/o Narayan cast Meena |
| | | 65 | 0.12 | Agriculture | Nandkishor, Ramesh, Balim Laxman Nabalik son Menu, Pujiya & Ratnabai D/o Tesbir, Ratna bai W/o Tasbir |
| | | 58/298 | 0.39 | Charagha | Charagha |
| | | 58 | 0.69 | Charagha | Charagha |
| | | 57 | 0.24 | Agriculture | Chaturbhuj, Munnalal, Chotmal, Mohan, Kabralal S/o Bhawaria, Kishoribai W/o Bhawaria share 1/3, Ram lal S/o Kishan share 1/3, Prabhulal, Chotulal, Devilal, Deubai, Kalash bai share 1/3. |
| | | 53/296 | 0.06 | Vacant | Reserved as per state law sec 92 |
| | | 77 | 0.15 | Irrigation Department | Irrigation Department |
| | | 204 | 0.17 | Agriculture | Bozar Singh S/o Magar Singh cast Jat |
| | | 205 | 0.5 | Temple | Temple |
| | | 206 | 0.35 | Vacant | Reserved as per state law sec 92 |
| | | 207 | 0.05 | Irrigation Department | Irrigation Department |
| | | 226 | 0.02 | Pacca House | Anil Kumar mortgage to Central Bank of India |
| | | 222 | 0.27 | Agriculture | Gopi bai W/o Satyanarayan, Brij mohan, Sambu Dayal S/o Gopi bai, Kanchan bai W/o Kalya share 1/3. Kasturi W/o Chanda, Sankari, Rukmani D/o Chandra share 1/3, Phoolwant adopted son Lila bai W/o Muna share 1/3 cast Bheel. |
| | | 224 | 0.08 | Agriculture | Gopi bai W/o Satyanarayan, Brij mohan, Sambu Dayal S/o Gopi bai, Kanchan bai W/o Kalya share 1/3. Kasturi W/o Chanda, Sankari, Rukmani D/o Chandra share 1/3, Phoolwant adopted son Lila bai W/o Muna share 1/3 cast Bheel. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|-----|------|-----------------------|---|
| | | 223 | 0.56 | Agriculture | Gopi bai W/o Satyanarayan, Brij mohan, Sambu Dayal S/o Gopi bai, Kanchan bai W/o Kalya share 1/3. Kasturi W/o Chanda, Sankari, Rukmani D/o Chandra share 1/3, Phoolwant adopted son Lila bai W/o Muna share 1/3 cast Bheel. |
| | | 219 | 0.16 | PWD Department | PWD Department |
| | | 225 | 0.6 | Land | Anil Kumar Mortgage to Central Bank of India |
| | | 213 | 0.11 | Drain | Government land/Nala |
| 5 | Dhakar Kheri | 357 | 0.28 | Agriculture | Sukh dev S/o Narayan, babool tree & one Boring (Mordgaged to Oriental Bank Of Commerce) |
| | | 360 | 0.3 | Agriculture | Ratan Lal, Kalyan, Ramchander, Ramcharan, Ramesh S/o Narayan. Nandobao D/o Narayan. |
| | | 356 | 0.02 | Agriculture | Ratan Lal, Kalyan, Ramchander, Ramcharan, Ramesh S/o Narayan. Nandobao D/o Narayan One Babool tree. |
| | | 398 | 0.03 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 361 | 0.9 | Agriculture | Ram Chander S/o Kishan Lal Mordgage Central Bank of India Kathun Branch Arjun pura |
| | | 363 | 0.4 | Agriculture | Ram Chander S/o Kishan Lal Mordgage Central Bank of India Kathun Branch Arjun pura |
| | | 364 | 0.06 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 370 | 0.09 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 369 | 0.06 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 368 | 0.08 | Agriculture | Udai S/o Kashi Ram |
| | | 371 | 0.34 | Agriculture | Udai S/o Kashi Ram |
| | | 372 | 0.02 | Agriculture | Prabhu lai, Dwarka lai, Ram charan, chotu lai, S/o Mogi bai D/o Nanda 5/14, Mahaveer S/o Kamla Phola, Jasoda kala D/o Sosar Bai W/o Modu lai 1/4 Roshan Bai W/o Ram Kalyan 1/4 Mirghi Kasturi Shanti D/o Gopal share 1/2 cast Meena |
| | | 367 | 0.05 | Irrigation Department | Irrigation Department |
| | | 331 | 0.12 | Irrigation Department | Irrigation Department |
| | | 345 | 0.08 | Siwaichak | Tehsildar. One tree of Babool |
| | | 346 | 0.03 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 344 | 0.2 | Agriculture | Bharu lai, Gandhi lai, Mukut Bihari S/o Rama Gopali Bai W/o Rama, Kachan Pari & Kalashi D/o Rama Mordgage with Central Bank of India Kathun for Rs 6750.00. |
| | | 334 | 0.03 | Agriculture | Bharu lai, Gandhi lai, Mukut Bihari S/o Rama Gopali Bai W/o Rama, Kachan Pari & Kalashi D/o Rama Mordgage with Central Bank of India Kathun for Rs 6750.00. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------|----------|------|----------------|--|
| | | 343 | 0.53 | Agriculture | Gajanan S/o Bharav Lal Gulab Dali, Pushpa D/o Bhawarlal Cast Mali |
| | | 335 | 0.08 | Agriculture | Satnam Kaur W/o Kamal Singh Mordgage with SBI ADP Kota for 460000=00 |
| | | 320 | 1.2 | Agriculture | Satnam Kaur W/o Kamal Singh Mordgage with SBI ADP Kota for 460000=00 |
| | | 319 | 0.01 | Agriculture | Satnam Kaur W/o Kamal Singh Mordgage with SBI ADP Kota for 460000=00 |
| | | 308 | 0.06 | PWD Department | PWD Department |
| | | 307 | 0.15 | PWD Department | PWD Department |
| | | 306 | 0.05 | PWD Department | PWD Department |
| | | 788 M | 0.8 | Pacca House | Emamul Bibal Institute Kota |
| | | 790 | 0.6 | Pacca House | Emamul Bibal Institute Kota |
| | | 791 | 0.13 | Pacca House | Emamul Bibal Institute Kota |
| | | 795/1028 | 0.05 | Pacca House | Emamul Bibal Institute Kota |
| | | 796 | 0.27 | Agriculture | Safi Md. S/o Yasin Khan Mordgage to PNB |
| | | 795 | 0.15 | Agriculture | Guru jat Singh, harmesh singh S/o Sarvan singh share 2/3, Emanulhak Bibal school Kota share 1/3. |
| | | 797 | 0.26 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 807 | 0.04 | Agriculture | Ram Dev Kalyan, Kalu S/o Gulab Narabda share 1/2, Babu Bai, Abdul Hamid S/o Makhalal Gulshan D/o Makhalal , Rahamat W/o makhalala cast Muslim share 1/2 |
| | | 804 | 0.71 | Agriculture | Ram Dev Kalyan, Kalu S/o Gulab Narabda share 1/2, Babu Bai, Abdul Hamid S/o Makhalal Gulshan D/o Makhalal , Rahamat W/o makhalala cast Muslim share 1/2 |
| | | 806 | 0.61 | Agriculture | Ram Dev Kalyan, Kalu S/o Gulab Narabda share 1/2, Babu Bai, Abdul Hamid S/o Makhalal Gulshan D/o Makhalal , Rahamat W/o makhalala cast Muslim share 1/2 |
| | | 805 | 0.2 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 809 | 0.33 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 810 | 0.06 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 808 | 0.3 | Agriculture | Chotu lal, Madan lal, Brij Mohan S/o Dhana & Gyasi cast Mali share 1/2, Kamlabai W/o Brij mohan cast Mali share 1/2 |
| | | 802 | 0.1 | Agriculture | Dhanalal S/o Dholi, Sundra, Kamla, purnia D/o chotmal 2/5 Lal chand S/o Nirmal Rinku minnor child Daughter Purnia Shanti W/o Kanahya lal. Prembai D/o Lalu 1/2 |
| 6 | Jhalipura | 59 | 0.03 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 65 | 0.22 | Agriculture | Gajanand S/o Motia Cast Kumawat |
| | | 66 | 0.1 | Agriculture | Nawal Kishor S/o Ram Kishan Cast Kumawat |
| | | 71 | 0.02 | Agriculture | Nawal Kishor S/o Ram Kishan Cast Kumawat |
| | | 72 | 0.1 | Agriculture | Gandi lal S/o Gothya cast Kumawat |
| | | 73 | 0.24 | Agriculture | Ram pal singh, Chander pal Singh, Prithvi Pal singh, Daryav, kawar S/o Prithvi Pal singh Rajput |

330461/05-5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------|-------------|------|----------------|--|
| | | 92 | 0.08 | Agriculture | Ram pal singh, Chander pal Singh, Prithvi Pal singh, Daryav, kawar S/o Prithvi Pal singh Rajput |
| | | 93 | 0.01 | Agriculture | Ram pal singh, Chander pal Singh, Prithvi Pal singh, Daryav singh, kawar singh S/o Prithvi Pal singh Rajput |
| | | 94 | 0.05 | Agriculture | Ram pal singh, Chander pal Singh, Prithvi Pal singh, Daryav singh, kawar singh S/o Prithvi Pal singh Rajput |
| | | 123 | 0.03 | Agriculture | Ahmed Iqbal S/o Raza Mohomad |
| | | 124 | 0.09 | Agriculture | Shyam lal, Ram karan, Janki lal, Omprakesh S/o Bharav lal, Naki bai D/o Bharav lal Narmada W/o Bharav lal |
| | | 126 | 0.18 | Kacha House | Omprakesh S/o Bharav lal |
| | | 127 | 0.01 | Kacha House | Omprakesh S/o Bharav lal |
| | | 128 | 0.01 | Kacha House | Omprakesh S/o Bharav lal |
| | | 146 | 0.01 | Kacha House | Nand Kishor S/o Magi lal |
| | | 152 | 0.02 | Pacca House | Nand Kishor S/o Magi lal |
| | | 153 | 0.07 | Pacca House | Nand Kishor S/o Magi lal |
| | | 154 | 0.06 | Pacca House | Siwaychak |
| | | 155 | 0.25 | PWD | PWD |
| | | 156 | 0.14 | Kacha House | Shyam lal S/o Bharav lal |
| | | 55 | 0.05 | PWD Department | PWD Department |
| 7 | Borkhandi | 448 | 0.01 | Agriculture | Phuli D/o Laxman Moti lal Jamindar S/o Bajrang lal, Jana W/o Bajrang lal |
| | | 403 | 0.01 | Siwaichak | Tehsildar. One well |
| | | 407 | 0.09 | Siwaichak | Tehsildar. (House Vijay Singh S/o Bhanwar Singh, Rajput. |
| | | 402 | 0.14 | Siwaichak | Tehsildar. One Hand pump. Govt. |
| | | 401 | 0.01 | Siwaichak | Tehsildar |
| 8 | Tather | 432 | 0.03 | Agriculture | Surender Singh etc. |
| | | 446 | 0.01 | Agriculture | Henraj S/o Modulal, Kala Manju D/o Modulal, Ramkanwari W/o Modulal Cast Dhakar |
| | | 445 | 0.03 | Agriculture | Henraj S/o Modulal, Kala Manju D/o Modulal, Ramkanya W/o Modulal Cast Dhakar |
| | | 451 | 0.09 | Agriculture | Surajmal Kishor Babulal S/o Dhanna Keshar W/o Dhanna Share 1/2 Ramkalyan, Ramratan S/o Parasa 1/2 Cast Dhobi |
| | | 392/907 | 0.04 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 298 | 0.11 | Agriculture | Sureshchand S/o Motilal Cast mali |
| | | 299 | 0.05 | Agriculture | Sureshchand S/o Motilal Cast mali |
| | | 300/959 | 0.1 | Agriculture | Sureshchand S/o Motilal Cast mali |
| | | 300 | 0.24 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 260 | 0.02 | Agriculture | Gopal S/o Nandlal Cast Bhaman |
| | | 258/869/943 | 0.08 | Agriculture | Gopal S/o Nandlal Cast Brahman |
| | | 258/869 | 0.14 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 248 | 0.08 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 244 | 0.09 | Siwaichak | Tehsildar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------|-------|------|-------------|---|
| | | 469 M | 0.15 | Agriculture | Shalin Kumar S/o Sushil Kumar Gupta Cast Bais Vigyan Nagar Kota |
| | | 476 | 0.04 | Agriculture | Irrigation Dept. |
| | | 568 | 0.77 | Agriculture | Irrigation Dept. |
| | | 629 | 0.09 | Agriculture | Ramnarayan S/o Ramgopal Cast Dhakar |
| | | 626 | 0.1 | Agriculture | Kodari Sua Ltd. |
| | | 627 | 0.17 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 296 | 0.01 | Agriculture | Motilal S/o Bala Bakash Cast mali |
| | | 297 | 0.01 | Agriculture | Motilal S/o Bala Bakash Cast mali |
| | | 786 | 0.01 | Siwaichak | Tehsildar |
| 9 | Brajeshpura | 469/2 | 0.01 | Agriculture | Omprakash S/o Gopilal Dhobi Manas village |
| | | 396 | 0.05 | Agriculture | Harji S/o Nanaka, Dhobi Tather |
| | | 397 | 0.13 | Agriculture | Ramdev S/o Rama Meghwal Tather |
| | | 398 | 0.15 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 400 | 0.16 | Agriculture | Ramkishan S/o Dalu Meghwal Daslana |
| | | 404 | 0.01 | Agriculture | Ramdev , Ramniwas, S/o Ganesh 2/3 Bajranglal, Shankerlal, Ramkumar, Premlal, Banwari S/o Chetram Meena |
| 10 | Daslana | 520 | 0.05 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 527 | 0.23 | Agriculture | Shrilal S/o Shanker, Janki W/o Shanker Dhakar |
| | | 580 | 0.26 | Agriculture | Ramswaroop S/o Chaturbhuj R/o Jhalipura |
| | | 581 | 0.1 | Agriculture | Ramnath S/o Chaturbhuj Dhakar |
| | | 582 | 0.03 | Agriculture | Ramnath S/o Chaturbhuj Dhakar |
| | | 583 | 0.55 | Agriculture | Ramnath S/o Chaturbhuj Dhakar |
| | | 584 | 0.09 | Agriculture | Ramnath S/o Chaturbhuj Dhakar |
| | | 585 | 1.02 | Agriculture | Ramnath S/o Chaturbhuj Dhakar |
| | | 586 | 0.07 | Agriculture | Ramnath S/o Chaturbhuj Dhakar |
| | | 730 | 0.06 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 731 | 0.15 | Agriculture | Nand kishor S/o Mangilal Brahman R/o Dadabari Kota |
| | | 746 | 0.01 | Agriculture | Vimal Kumar S/o Govindlal Brahman Kota |
| | | 708 | 0.65 | PWD | PWD |
| | | 696 | 0.01 | Siwaichak | Tehsildar |
| 11 | Naya Nohra | 283 | 0.78 | Agriculture | Surajmal, Ramsawaroop, Balram S/o Khemchand cast Laskari |
| | | 280 | 0.34 | Agriculture | Surajmal, Ramsawaroop, Balram S/o Khemchand cast Laskari |
| | | 279 | 0.17 | Agriculture | Anandilal S/o Dhannalal Laskari |
| | | 275 | 0.46 | Agriculture | Motyabai W/o Ramchandra 1/2 Haribalabhai S/o Khemchand 1/2 Laskari |
| | | 277 | 0.08 | Agriculture | Modu, Bajrang S/o Rama , Chhitar S/o Bhulibai D/o Deva W/o Kajori W/o Deva Onkar 1/4 Ganpat, Keshrilal S/o Amra Rampayare D/o Amra 1/4 Khemchand S/o Chetan Prakash Bhuri Kali, Gulab D/o Chetan Prakash, Mohanbai, Shyamabai D/o Ramlal |
| | | 276 | 0.45 | Agriculture | Keshrilal, Bholuram, Hajarilal S/o Onkar Laskari |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------|--------|------|-------------|---|
| | | 268 | 0.5 | Agriculture | Keshrilal, Bholuram, Hajarilal S/o Onkar Laskari |
| | | 269 | 0.06 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 287 | 0.09 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 153 | 0.43 | Agriculture | Chamanlal & Sant pawan Kumar, Chamanlal & Dr. Rameshchand Sahni S/o Laxcha Ram Sahni Kota |
| | | 158 | 0.02 | Charagah | Charagah |
| | | 197 | 0.36 | Agriculture | Trilochan Singh S/o Gulab Singh, Smt. Rajendra Kaur W/o Trilochan Singh Kota Lalchand, Mohanlal S/o Kishna widow Kishana W/o Baidev, Surajbai, Ramkanya D/o Kishanlal Laskari |
| | | 193M | 0.08 | Agriculture | UIT |
| | | 191 | 0.07 | Agriculture | Lalchand, Mohanlal S/o Kishana, Pannibai, Devbai, Surjabai Ramkanya D/o Kishna, Narayani W/o Krishna cast Laskari |
| 12 | Hathi Khara | 7 | 0.05 | Temple | Mundir Shri Murli Manoharji |
| | | 8 | 0.04 | Agriculture | Chothmal S/o Kanwarlal |
| | | 240 | 0.45 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 258 | 0.18 | Siwaichak | Tehsildar |
| | | 10/327 | 0.07 | Private | Balaprataap Gulab QW/o SharvanGirdhari W/o Laxmi |

[F. No. NHAI/11014/Tech./EW-II/LA/Kota/2003]
PRABHAKAR, Dy. Secy.